

Date: 08th February, 2024

Ref: UAF/2023-24/49

To BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 (Maharashtra)

Ref: Universal Autofoundry Limited (539314/UNIAUTO)

Sub.: Newspaper Advertisement pertaining to Financial Results for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2023.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results of the Company for Quarter and Nine Months ended on December 31, 2023, published in the following newspapers: -

- 1. Financial Express (National daily newspaper) on 08th February, 2024
- 2. Business Remedies (Daily newspaper of the State) on 08th February, 2024

The same has been made available on the Company's website www.ufindia.com .

Kindly take the information on record.

Thanking you, Yours faithfully, For Universal Autofoundry Limited VIMAL CHAND JAIN

Vimal Chand Jain Chairman and Managing Director DIN: 00295667

Encl:-A/a

UNIVERSAL AUTOFOUNDRY LIMITED

Unit-1: B-307, Road No. 16, V.K.I. Area, Jaipur, Rajasthan - 302013 (India) Unit-2: B-51, SKS Industrial Area, Reengus, Sikar, Rajasthan - 332404 (India) Unit-3: A2-4, A18-20, Udhyog Vihar, Sargoth, Reengus, Sri Madhopur, Rajasthan - 332404 (India) E-Mail: support@ufindia.com, Cont. No.: 0141-4109598, Website: www.ufindia.com, GSTIN: 08AABCU1171A1ZV

जयपुर। गुरूवार ८ फरवरी, २०२४

बिजनेस रेमेडीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड/ कंपनी फोकस

निवेशकों के लिए आज खुलेगा 'पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लि.' का आईपीओ 13 फरवरी तक कंपनी के आईपीओ में आवेदन कर सकेंगें निवेशक



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। गुजरात के वडोबरा आधारित 'पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लि. द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज खुलकर 13 फरवरी को बंद होगा।

पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड 'पॉलीसिल' ब्रांडनेम के तहत एचडीपीई पाइप, फिटिंग और सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली और रिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली के साथ-साथ उनके कंपोनेंट्स, एसेसरीज और संबंधित उत्पादों का निर्माण और वितरण करती है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एचडीपीई पाइप.

पाइप फिटिंग और सिंचाई उपकरण शामिल हैं, जिनमें डिस्क फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, रेत फिल्टर (बजरी), कंप्रेशन फिटिंग, वाल्व (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल), उर्वरक टैंक, डिजिटल नियंत्रक, प्रेशर गेज आदि शामिल हैं। पॉलीसिल सिंचाई प्रणाली

गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, किया है। वित्तीय परिणामों से आंध्र प्रदेश. कर्नाटक. मध्य रुपष्ट है कि वर्ष दर वर्ष कंपनी का लाभ बढ़ रहा है। वित्त वर्ष प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में संचालित होती है। 2023 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 2.57 फीसदी कंपनी अपने उत्पाद संस्थागत दर्ज किया गया है, जो कि काफी बाजारों और खुले बाजारों के माध्यम से बेचती है। अच्छा कहा जा सकता है। वित्त कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः वित्त वर्ष 2023 तक कंपनी की कुल वर्ष 2021 में कंपनी ने कुल असेदस 55.31 करोड़ रुपए, राजस्व ५४.७१ करोड रूपए एवं नेटवर्थ 15.35 करोड़ रुपए,

64.81 लाख रूपए का कर



रुपए और कुल कर्ज 15.47 पश्चात शुद्ध लाभ ,वित्त वर्ष २०२२ करोड़ रूपए दर्ज किया गया है। में 37.67 करोड़ रुपए का राजस्व एवं ३३.७५ लाख रूपए कंपनी का कर्ज उसकी कुल का कर पश्चात ष्ट्राद्ध लाभ और नेटवर्थ के बराबर है। इस आधार वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने पर कह सकते हैं कि कंपनी पर कुल राजस्व ४३.९२ करोड़ कर्जभार कम है। रुपए एवं 1.13 करोड़ रुपए का आईपीओ के संबंध में जानकारी:

'पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लि.' का आईपीओ का आईपीओ एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर आज खुलकर 13 फरवरी 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 54 रूपए प्रति शेयर के भाव पर 32,29,000 शेयर जारी कर 17.44 करोड़ रूपए ज़ुटाए जा रहे हैं। इनमें से 1785000 शेयर कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बिक्री किए जा रहे हैं। कंपनी की

IPO Date	February 8, 2024 to February 13, 2024
Listing Date	[.]
Face Value	₹10 per share
Price	₹54 per share
Lot Size	2000 Shares
Total Issue Size	3,229,000 shares (aggregating up to ₹17.44 Cr)
Fresh Issue	1,444,000 shares (aggregating up to ₹7.80 Cr)
Offer for Sale	1,785,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹9.64 Cr)
Issue Type	Fixed Price Issue IPO
Listing At	NSE SME
Share holding pre issue	9,897,090
Share holding post issue	11,341,090

आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 2000 शेयरों का है। कंपनी के आईपीओ में मार्केट मेकर की जिम्मेदारी मार्केट-हब स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आईपीओ को प्रबंध प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी

फेडेक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नोटः कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पर्व निवेशकों को पंजीकृत निवेश सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए और यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

टाटा कंज्यूमर का दिसम्बर तिमाही में शुद्ध लाभ 17 प्रतिशत घटा बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का चालू

5

वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) का एकीकृत शुद्ध लाभ 17.26 प्रतिशत घटकर 301.51 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी ने कहा कि उसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों का योगदान कम रहने की वजह से मुनाफा घटा है। टाटा समूह की एफएमसीजी इकाई का अपवाद वाले मद और कर-पूर्व एकीकत लाभ दिसंबर, 2023 को समाप्त

ई-मेलः info@neelrock.com, टेलिफोन नं. +0291-2631839 <u>सू</u> यना तेषी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतारों) विविद्धम, 2015 के विविद्यम 33 सपठित विविद्यम 47 के अनुपास में तूप्रवा वो वाली है कि कराकों के विवेशक मंडल की एक बेठक बुधयार 14 फरसरी. 2024 को पंजीवृत्त कार्यालय परं के उत्तराव, 15 स्टराबर 2023 को समाद तिमाही के लिए कंपनी के अन-अंकोक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के R आयोजित होने वाली है। कि अत्याव, 15 सिरमबर 2023 को समाद तिमाही के लिए कंपनी के जिन्द्र मुंदिरम्प्य देवे पंजीवृत्त कार्यातम में 307, रोड नं. 16, नी.के.आई. एपिया, जयपुत्त 302 013 (राज.) द्रुरगमः 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; रेवसाइट: www.ulindia.com, ई-पेल: support@ulindia.in दिसम्बद 21, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैरउकेकिति वित्तीय परिणामों का सार कंपनी के गैरअकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार कंपनी के गैरअकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार कंपनी के गैरअकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों हो सारा 133 वे तिहत निर्धारित मारतीय लेखा मानवगे (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। (र लाख में कु: विवरण		पंजीकृत कार्यालयः प्लैट नं.	L14219RJ1988PLC062162 नं. 606, योजना चोपासनी जागीर, खसरा नं. 175/74, नं. 15/16 जोयपुर, राजस्थान-342001					
रोबी (यूयीबढ़ता बविरत और प्रकटीकरण आवश्यकरारी) किलियम, 2015 के विलियम 33 सपठित विलियम 47 के अनुपात में यूयना दी जाती है कि कंपनी के निवेशक मंडल की एक बैठक कुप्रसार 14 फरसरी, 2024 को पंजीकृत कार्यालय परे नंबर 806, स्ठफ्रैम भोयतस्त्री जानी2, स्नतरा नंबर 175/74, प्लॉट नंबर 15/16 जोसपुर, राजस्थान - 342001 में उज्ज ब के उतावा, 31 बिरमबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के उन-अंकोक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के क आयोजित होने वाली है। जिदेशक गंडल की आड्यानुतार नेविरक गंडल की आड्यानुतार क्रिस्त गंडल कार्यांत हो 307, रोड नं. 16, वी.के.आई. एरिया, जयपुत्त 302 013 (राज.) नुरमाथ: 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; खेवसाइट www.ufindia.com, ई-पेल: support@ufindia.in दिरसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैरअकेब्रित स्टेंडअलोन नित्तीय परिणामों का सार कंपनी के मैरअंकव्रित स्टेंडअलोन नित्तीय परिणाम कंपनी अधिनिया, 2013 की धारा 133 वे तहत निर्धारित माग्ततीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार तैयार किय गए हैं। (र लाख में क्रा विवरण <u>से यु</u> ल आय 447120 5238.05 5265.63 15476.74 23711.85 ट. परिवालन लाभ (वीबीआईडीटी) 17.21 366.83 771.67 1091.07 2556.2 31 कर के यहले (प्रंवकव्रित) (गंदबंगवेल) (राठ.197, 12.91 356.22 313.49 2023) 30.83 2023 31.83207 19.83207 31.83207 31.83207 31.93208 323.55 1056.83 61 इकिटन शेखर पूली (127.82) 102.13 360.38 321.55 1056.83 61 इकिटन शेखर पूली (राउववेबित) (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 ट. तरस (राय वे से: तनी (सूरीबद्रता दायिक तो प्राखन ती वारित या मुही के सपाप्त तियाम बेस्रत प्रालप ये पर के तहत स्टॉत एक्सरबंव में दाखिल तिमाही और नी मही के सपाप्त तियाम 1 विनियमन 33 के तहत स्टॉत के सारा तियित या देखल के साखित तिमाह 30 प्रे प्रें के साराम वित्तीय परिणाम वे विनियमन 33 के तहत स्टॉत एक्सरबंव में दायिक तिमाही का प्राय आत्र परयाम पर प्राय मं वी						839		
में तुरुवा दी जाती है कि कंपनी के विदेशक मंडल की एक बैठक कुयरार 14 फरसरी, 2024 को पंजीकृत कार्यालय परें कंपर 666, रकीम मोयसकी जानी?, कसराव मंडर 175/74, प्लॉट मंडर 15/16 जीयपुर, राजस्थान - 342001 में उल्य ब के उलाव, 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के उल-उकेबिल वित्तीय परिणमां पर विचार करने के ति आयोजित होने वाली है। किदेशक उंडल की आड्युद्धार जीतकंठ रॉक-फ्रिक्टर सिमिटेड के लिए कृरेत- वित्तकंठ राज-फ्रिक्टर सिमिटेड के लिए कृरेत- वित्तकंठ राज-प्रजयस्थ कारतजन करवर स्वान, जायपुर प्रायं क्रिसेटड पंजीकृत कार्यालय: बी 307, रोड नं. 16, वी.के.आई. एरिया, जयपुत्त 302 013 (राज.) बुरमाष: 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; रेवसाइट: www.ufindia.com, ई-पेल: support@ufindia.in दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए येरअकेक्षित स्टेंडअलोन बित्तीय परिणामों का सार कंपनी के यैरअंकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार कंपनी के यैरअंकक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 वे तहत निर्धारित मारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार रौया किए गए हैं। (र लाख में क्र. विवरण <u>रो 172021 305 2023] 15, 22023</u> 73, 03202 (पैरबर्भक्षित) (पैरबर्भक्षेक्ष) (पैरबर्भक्षित) (पैरबर्भक्षित) (अकेक्षित) (अकेक्षित) 1. परियलन से कुल आय 447120 5238.05 5265.63 15476.74 23711.85 2. परिवलन लाभ (पीबीआईडीटी) 17.21 366.83 771.67 1091.07 2556.2 3. कर के प्रहले (य्रुद्ध लाम/(हानि) 4. कर के बाइट (प्रत्वेक 10 रुपये का) 7. आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1. युद्ध (रमयये में): 1. (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 6. इक्रिटरी 10 रुपये का) 7. आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1. युद्ध तम में के सार जवधि के लिए (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 6. दाइलर सर्व प्रे स्थे के सिल्त दायिक्य और प्रकटीक्श वीत्ती मा सुरी के सपाप्त वित्तिय परिपान वेत्तिय मार आप के बाय के पर का, हार रिकल सर्व के स्वाक्श तिमाही वार्यान के सपाप्त वित्त्य पर का 2. तरस (रमये में): 1. (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 7. उपल देवरण से बी (सूरीबद्ध दायिक्ल वे रायक्ल तिमाही वारेन मा महीन के सपाप्त वित्			सूचव	π				
विल्वठं रॉक-क्रिवर सिक्रिंड के लिए कृते/- कृति- कृति- कृति- कृति- कृत- कृत- कृत- कृत- कृत- कृत- कृत- कृत	में र नंबर के र	मूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंड र 606, स्कीम चोपासनी जागीर, खसरा नंबर अलावा, 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमार्ह	ल की एक बैठव १ 175/74, प्लॉर	क बुध्रयार १४ ट नंबर १५/१६	फरवरी, 2024 जोधपुर, राजन् भ्रेत वित्तीय परि	4 को पंजीकृत स्थान - 34200 णामों पर क्विचा	कार्यालय प्रलेख)1 में अन्य बाल र करने के लिप	
कृतं/- कोटनल केवर राहत जीयवुर प्रबंग किवेस्ट पंजीकृत कार्यालय: बी 307, रोड़ मं. 16, बी.के.आई. एरिया, जयवुर 302 013 (राज.) दुरमाह: 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009ELC030038; रवसाइट: www.ufindia.com, ई-पेल: support@Ufindia.in दिसमबर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैरअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार तेयवी के गैरअंकेक्षित स्टेंडअलोन बित्तीय परिणामों का सार गैरअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार गैरअंकेक्षित स्टेंडअलोन बित्तीय परिणामों का सार तेयवी के गैरअंकेक्षित स्टेंडअलोन बित्तीय परिणामों का सार गैर्ग विवरण राहत निर्धारित भारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार हीया किए गए हैं। (र लाख में तेयहा निर्धारित भारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार हीया किए गए हैं। (र लाख में तेयहा निर्धारित भारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एपस) के अनुसार हीया किए गए हैं। (र लाख में तेयहात निर्धारित भारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एपस) के अनुसार हीया किए गए हैं। (र लाख में तेयहात निर्धारित भारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एपस) के अनुसार हीया किए गए हैं। (र लाख में तेयहात निर्धारित भारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एपस) के अनुसार हीया किए गए हैं। (र लाख में तेयहात निर्वाहन को कुल आय 4471.20 5238.05 5265.63 15476.74 23711.85 2. परिवालन लाभ (पीबीआईडीटी) 17.21 365.83 771.87 1091.07 2556.2 3. कर के यहले (215.88) 157.98 492.77 432.13 1477.06 शुद्ध ताम/(हानि) 4. कर के बह्व स्ट्री (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध ताम/(हानि) 5. कुल व्यायक आय अवधि के लिए (137.82) 102.13 380.38 321.55 1056.83 6. इक्विटी शेवर पूर्णी (144.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध ताम /(हानि) 7. आय प्रति वेवरण रेखी (सुरीबद्धता दायिक और प्रकट्येकाराजी तीनियम, 2015 वे विनियमन 33 के तहल स्टों एकवर्य के गैरालील तियाण आववयकतार्ग) विनियम, 2015 वे विनियमन 33 के तहल स्टों एकवर्य के गैराक्तिल नियाही और ना महीन के सपाप्त वितीय यारेपामा वित्तीय यारेपामा व विनियमन 33 के तहल स्टोंक एकवर्य के गैराक्तिल तिमाही और ना महीन के सपाप्त वितीय यारेपामा वे विनियमन 33 के तहल स्टोंक मेराकी रेयरकेक्वित वितीय का घूरी मालत परियाम स्टोंक स्वालक तिमाही वा यहात्या में				तीन				
वित्रांकः 07.02.2024 स्वानः जोयपुर वित्रांकः जोयपुर वोरतनलं कवर प्रबंध विदेशक विव्राहः गोर्ग्य विवर्धां ते के आई. एरिया, जयपुर 302 013 (राज.) दूरभाषः 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; वेवसाइट: www.utindia.com, ई-पेल: support@utindia.in दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैराउंकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार तिदसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैराउंकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार कंपनी के गैरअंकेक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1.33 वे तहत निर्धारित मारतीय लेखा मानवर्गे (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। कि वैवरण 131.12.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.202 (राक्ककित) (गैराककेकित) (गैराककित) (गैराककित) (गैराककित) (अकेकित) 1 परियालन ले कुल आय 4471.20 5236.05 5266.63 15476.74 23711.85 2. परिवालन लाभ (यीबीआइंडीटी) 17.21 366.83 771.67 1091.07 2556.2 3. कर के घहले (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 वृद्ध लाग/(हानि) 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 4. कर के बाद (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 तुद्ध लगग/(हानि) 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 5. कुल व्यापग अखि के				чк			NP (V15	
मिनिस्तिम् सुनिवर्स्त अॉटोफाउंडी लिमिटेड एंजीकृत कार्यालयः बी 307, रोइ नं. 16, वी.के.आई. एरिपा, जयपुर 302 013 (राज.) दूरमाष: 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; दूरमाष: 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; रेवसाइट: www.ulindia.com, ई-नेल: support@ulindia.in दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैरअंकेक्षित वित्तीय परिणामां का सार केपनी के गैरअकंक्षित स्टेंडअलोन किसीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 वे तिहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड एएस) के अनुसार तीया किए गए हैं। (१ लाख में क. विवरण तिमाही राषा किसीय परिणामां कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 133 वे तिहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड एएस) के अनुसार तीया किए गए हैं। (१ लाख में ताहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड एपरा) के अनुसार तीया किए गए हैं। (१ लाख में (१ लाख में ताहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड एपरा) के अनुसार तीया किए गए हैं। (१ लाख में (१ लाख में ताहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड एपरा) के अनुसार तीया किए गए हैं। (१ लाख में (१ लाख में ताहत निर्धारित मारतीय लेखा मानको (इंड एपरा) के अनुर 12 2023 30 08 2023 31 12 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 08 2023 31 12 2023 31 12 2023 31 31 22 2023 31 08 2023 31 12 20	दिन	रेक: 07.02.2024						
पंजीकृत कॉर्यालय: बी 307, रोड़ मं. 16, बी.के.आई. एरिया, जयपुर 302 013 (राज.) दूरमाव: 0141 4109598, CIN: L27310RJ2009PLC030038; रेवसाइट: www.ufindia.com, ई-लेल: support@Ufindia.in दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैरअंकेक्षित रदेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार गैरअंकेक्षित रदेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार कंपनी के गैरअंकेक्षित रदेंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1.33 वे तहत निर्धारित मारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। तहत निर्धारित मारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। तहत निर्धारित मारतीय लेखा मानवर्ग (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। त्रा विवरण तियार्ख रखा कि अनुसार तैयार किए गए हैं। त्रा परियालन ले कुल आय 4471.20 1 परियालन ले कुल आय 4471.20 2. परिवालन लाभ (यिबीआईडीटी) 17.21 365.83 771.67 1091.07 2556.2 31.49 1048.93 शुद्ध लाम/(हानि) (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 तुद्ध लाम/(हानि) (124.345 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 5. कुल व्यापक आग अवधि के लिए (137.82) 102.13 360.38 321.55 1056.83 6. इक्रिली शेयर (रु.	स्था	नः जोधपुर			प्रबंध	कार्डक		
शि: विवरण 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.03.202 परिवालन से कुल आय 4471.20 52.38.05 5265.63 15476.74 23711.85 2. परिवालन से कुल आय 4471.20 52.38.05 5265.63 15476.74 23711.85 2. परिवालन से कुल आय 4471.20 52.38.05 5265.63 15476.74 23711.85 2. परिवालन लाभ (पीबीआईडीटी) 17.21 365.83 771.67 1091.07 2556.2 3. कर के पहले (215.88) 157.98 492.77 432.13 1477.06 शुद्ध लाग / (हानि) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध लाग / (हानि) 112.91 356.22 313.49 1048.93 5. कुल व्यापक आग अवधि के लिए (137.82) 102.13 360.38 321.55 1056.83 6. इकिंटरो का? 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (प्रत्वो के शेयर (रु. 10/- माते का) 1 1.243.45 1211.25 10.38 <th></th> <th>गैरअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्त</th> <th>त वित्तीय प रीय मरिणाम</th> <th>ारिणामों कंपनी अधि</th> <th>का सार रनियम, २०</th> <th>)13 की धा</th> <th></th>		गैरअंकेक्षि त स्टैंडअलोन वित्त	त वित्तीय प रीय मरिणाम	ारिणामों कंपनी अधि	का सार रनियम, २०)13 की धा		
2. परिवालन लाभ (पीबीआईडीटी) 17.21 365.83 771.67 1091.07 2556.2 3. कर के प्रहले (215.88) 157.98 492.77 432.13 1477.06 शुद्ध लाम/(हानि) (215.88) 157.98 492.77 432.13 1477.06 शुद्ध लाम/(हानि) (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध लाम/(हानि) . . . 102.13 360.38 321.55 1056.83 6. इक्रिन्टी शेयर पूंणी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (प्रत्येक 10 रुपये का) .		Iddian		30.09.2023	31.12.2022	31,12,2023	वार्थिक समाग 31.03.2023 (अकेझिल)	
3. कर के पहले (215.88) 157.98 492.77 432.13 1477.06 शुद्ध लाम/(हानि) (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध लाम/(हानि) (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध लाम/(हानि) 1 102.13 360.38 321.55 1056.83 6. इक्रिटी शेयर पूंजी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (प्रात्येक 10 रुपये का) 7. आग्र प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1. 1. 2. तरस (रुपये में) 10.38 7. आग्र प्रति शेयर (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 7. तरस (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 तरस (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 तरा त (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 8 तरा त (रुपये में): (1.14) 0.84 3.65 8.91 10.38 वोतियाम 33 ताहत प्र परे मे	1.						23711.85	
शुद्ध लाम/(हानि) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध लाम/(हानि) 112.91 356.22 313.49 1048.93 शुद्ध लाम/(हानि) 112.91 360.38 321.55 1056.83 5. डुकिन्टी शेखर पूंणी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (आर्थक 1.0 रुपये का) 1 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (आर्थक 1.0 रुपये का) 1 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (आर्थक 1.0 रुपये का) 1 1.43.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (अर्थक 1.0 रुपये का) 1 1.243.45 1211.25 10.38 1.2.3 1.0.38 2. तरल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 2. तरल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 नोट: 1. जपरेत विवरण से वी (सुदीबद्धता दायो का वार्थिक तिसाही और नी महीने के सपाप्त किया परिणामा न दीख परे का पर का स्वर्ण 1.5 स्वरिय पर का गरक ते का एक पर कर होक ए	2.		17.21	365.83	771.67	1091.07	2556.2	
4. कर के बाद (154.97) 112.91 356.22 313.49 1048.93 गुद्ध लाग / (हानि) 5. कुल व्यापक आग अवधि के लिए (137.82) 102.13 360.38 321.55 1056.83 6. इकिंटी शेयर पूंणी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (प्रत्येक 10 रुपये का) 7. आग प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1. 1. मूल (रुपये में) (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 2. तराल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 वोट: 1. उतराल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 वेट: तराल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 वेट: तराल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 वेट: तराल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 वेट: तराल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 वेट: तराल	3.		(215.88)	157.98	492.77	432.13	1477.06	
शृद्ध लाम / (हानि) 102.13 360.38 321.55 1056.83 5. डुकिन्टी शेयर पूंजी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 6. डुकिन्टी शेयर पूंजी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 7. आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का)	1	the second se	1			-		
5. ग्रुक व्यापक आय अवधि के लिए (137.82) 102.13 360.38 321.55 1056.83 6. इकिंटी शेवर पूंजी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (प्रत्येक 1.0 रुपये का) 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 7. आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1.4, यूल (रुपये में) (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 2. तरास (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 नोट: 1. उपरांक विवरण सेबी (सूर्यीबद्धता दायिक और प्रकटीकरण आवश्यकतार्थ) विनियम, 2015 वे 18नियमन 33 के तराहत स्टार्य के प्रतिपामां वे 18न्ते आर्थ, प्रिंग महीने के सपाप्त वितीय परिणामां वे 18न्त आर्थ, प्राक्षा प्रका प्रक प्रयाग स्टार्य कर एक उद्धया है। त्रेपारिक गैरअवेराक्षित वित्तीय का पूर्ण प्राक्ष परिणाम वे 121.25	4.	ALCOND. TANK AND ALCOND.	(154.97)	112.91	356.22	313,49	1048.93	
6. इंक्रिटी शेखर पूंणी 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 (प्रत्योक 10 रुपये का) 1243.45 1211.25 1013.75 1243.45 1211.25 7. आग प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1 1.	-		1745 24	100 10			1000	
(प्रत्येक 10 रुपये का) 7. आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1. यूल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 2. तरल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 नोट: 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 है वीन्यियम 33 के तहत स्टॉक एक्सवेंज में दाखिल तिमाही और नी महीने के सपाप्त विनिय परिणामों है विस्वित प्रारूप का एक वद्धरण है। त्रैयासिक गैरडांकीहित वित्तीय का पूर्ण प्रारूप प्रिणाम स्टॉक एक्सहेंज में	_							
 आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) 1. यूल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 2. तरल (रुपये में): 	ю.	D.	1243.45	1211.25	1013.75	1243,45	1211,25	
1. मूल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 2. तरल (रुपये में): (1.14) 0.84 3.55 8.91 10.38 नोट: 1. उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 है 10.38 10.38 10.38 नोट: 1. उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 है 10.38 10.38 10.38 नोट: 1. उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 है 10.38 10.38 10.38 नोट: 1. उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 है 10.38 10.38 10.38	7		1					
2. तरल (शपये में): (1,14) 0.84 3.55 8.91 10.38 नोट: 1, उपरोक्त दिवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 हे विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सवेंज में दाखिल तिसाही और नी महीने के सपाप्त तियोग परिणामी विस्तृत प्राजय का एक उद्धरण है। त्रैयासिक गैरडांकेद्रित वित्तीय का पूर्ण प्रालग परिणाम स्टॉक एक्सडेंज र्व	1		1000	0.84	3.55	8.01	10 38	
नोट: 1, उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 वे विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सवेंज में दाखिल तिमाही और नौ महीने के सपाप्त वित्तीय परिणामों विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक गैरडांकेहित दिनीय का पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सॉज र्व					01020	1.1.1.1.1.1.1.1	247 2120	
SPECIAL WWW.ESCHUERCOTT SITC 974PT 971 99PECC WWW.UTITOTA.COTT 99 EQUIDED FT	5. 6. 7. नोरविश	कर के बाद मुद्ध लाम / (हानि) कुल व्यापक आय अवधि के लिए इक्रिटी शेखर पूंणी (प्रत्येक 10 रुपये का) आय प्रति शेखर (रु. 10 / -प्रति का 1. यूल (रुपये में) 2. तरब (रुपये में) 2. तरब (रुपये में) 2. तरब (रुपये में) दा राज्य का एक उद्धरण है। वैयासिव प्रवासका का एक उद्धरण है। वैयासिव	(137.82) 1243.45) (1.14) (1.14) 11 दायित्य और में दाखिल तिर	102.13 1211.25 0.84 0.84 र प्रकटीकरण मही और नौ वित्तीय का प्र	360.38 1013.75 3.55 3.55 आवश्यकर महीने के र एष्ट्रि प्रारूप पाँ	321.55 1243.45 8.91 8.91 गएँ) विनियम गाप्त वित्तीय रेणाम स्टॉक	1056.8 1211.2 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38	

	लिमिटेड, टाटा पावर, हिल्ड	पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 3.56	Reservation for NIIs Reservation for QIBs	9,24,000 Equity Shares 12,31,200 Equity Shares	बयान में कहा कि सर्वोटेक पावर	दिसम्ब अन्य अ	र 31, 2023 केक्षित एकल	3 को समाप्त (ज्रैंड अलो	त तिमाही औ	ार नौमाही के परिणामों का		र लाख में
पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण,	एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और	फीसदी दर्ज किया गया है। वित्त	Reservation for Retail	21,55,200 Equity Shares	सिस्टम एसी ईवी चार्जर के	9,10	तिमाही	3. 10 LS	तिमाही	and the real state	नौमाही	वार्षिक
कंपनी की कार्यशील पूंजी	शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड	वर्ष 2024 में 30 सितंबर 2023	Book Running Lead Manager	Corporate CapitalVentures Private Limited	विनिर्माण, आपूर्ति और विभिन्न हवाई	विवरण	समाप्त 31.12.2023	समाम 30.09.2023	समाम 31.12.2023	रामाम 31.12.2023	समाप्त 31.12.2022	रामास 31.03.2023
आवश्यकताओं को पूरा करने के	शामिल हैं।	तक कंपनी की कुल असेट्स	Registrar	Skyline Financial Services		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) (সনস্রকিজির)		
लिए और सामान्य कॉर्पोरेट व्यय	कंपनी को कई गुणवत्ता	141.88 करोड़ रुपए, नेटवर्थ	Equity Shares outstanding prior to the Offer	1,79,93,400 Equity Shares of face value of £10 each	अड्डों और अन्य स्थानों पर उसे	परिचालनों से कुल आय अवधि हेव शुद्ध लाम/(हानि)	-		-	7276.55		
की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज	प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें	49.06 करोड़ रुपए, रिजर्व एंड	एल्पेक्स सोलर वि	नमिटेड के आईपीओ को	स्थापित करने के लिए जवाबदेह होगी। सर्वोटेक के अनुसार, उसे	अवाय हुतु शुद्ध लाम/ (हान) (कर, अपवाद तथा असाधारण मदों से पूर्व)	585.05	000.33	921.52	1635.61	1726.48	219.81
प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज	आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001: 2018, और	सरप्लस ४३.०७ करोड़ रूपए और कुल कर्ज ४१.७५ करोड़		से मिला अच्छा समर्थन	उम्मीद है कि यह अनुबंध इस साल	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा असाधारण गदों के बाद)	585.05	555.33	921.52	1639.61	1726.48	2219.81
खुलकर 12 फरवरी को बंद	आईएसओ 9001: 2015 शामिल	रुपए दर्ज किया गया है।		आईपीओ को एंकर निवेशकों से अच्छा	बड़े ईवी चार्जर ऑर्डर का जरिया बनेगा। इस अनुबंध का उद्देश्य	अबधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चाल (अपवाद लया	437,83	414,45	691.14	1226.70	1294,86	1636.08
होगा। कंपनी 'एल्पेक्स सोलर	हैं, ये सभी केवीक्यूए असेसमेंट	कंपनी के आईपीओ के		नेंग लीड मैनेजर की सलाह से 115 रूपए	उपयोगकर्ता के अनुकूल ई-परिवहन	असाधारण भदों के बाद) अवधि हेनु कुल व्यापक आय	437.83	414.45	891.14	1226.70	1294.86	1636.08
लिमिटेड' मोनोक्रिस्टलाइन और	प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमाणित हैं।	संबंध में जानकारीः 'एल्पेक्स	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	शकों को १८,४५,६०० शेयर आवंटित किए		अवधि के लिए लाग/(हानि) (कर प्रथात) तथा अन्य व्यापक		1000	1.00			
पॉलीक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजी	कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः	सोलर लिमिटेड' का आईपीओ	-	वारसु ग्रोथ स्टोरी स्कीम १ को ६००,०००	व्यवस्था केंद्र स्थापित करना,	आयों को सम्पिलित करके						
आधारित सोलर पैनल बनाती है।	वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने कुल	एनएसई इमर्ज प्लेटफार्म पर			लेनदेन को सुव्यवस्थित करना,	(कर पश्चाल) समला अंश पूँजी	2691.15	2691.15	2691.15	2691.15	2691/16	2691.15
कंपनी बाइफेशियल, मोनो	राजस्व १४९.१५ करोड़ रूपए एवं	आज खुलकर १२ फरवरी २०२४	-	आर्वेन को ४००,८०० शेयर, बीकन स्टोन	उपलब्धता बढ़ाना, खोज को	संचय (पूनर्मुल्यांकन संचय		E. C. F. LAN		1.002.70		3924.99
पीईआरसी और हाफ-कट	3.15 करोड़ रूपए का कर	को बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक		ा को २००,४०० शेयर, क्राफ्ट इमर्जिंग	सुविधाजनक बनाना और ईवी	छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में						
मॉड्यूल सहित सौर पैनल	पश्चात शुद्ध लाभ ,वित्त वर्ष 2022	बिल्ट इश्यू प्रणाली से 10 रुपए		पिटल फंड को 200,400 शेयर,एसिंट्यो	उपयोगकर्ताओं के लिए 'नेविगेशन'	दर्शाया गया है) प्रति शेयर अर्जन (क 10/-						
मॉड्यूल की एक श्रृंखला पेश	में 168.53 करोड़ रूपए का	फेसवैल्यू के 6480000 शेयर		को १,७४,००० शेयर, फिनावेन्यू कैपिटल	को सरल बनाना है।	प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचलनों हेंबु)—						
करती है। कंपनी सौर ऊर्जा	राजस्व एवं 19.42 लाख रूपए	109 से 115 रूपए प्रति शेयर के		90,000 शेयर, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट		मूल:	1.63	1.54	2.57	4.56	4.81	6.08
समाधान प्रदान करती है, जिसमें	का कर पश्चात शुद्ध लाभ और	भाव से जारी कर 74.52 करोड़		र और कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को	प्रबंधन के आदेश से सूचना	तरल	1.63	1.54	2:57	4.56	4.81	6.08
सतह और सबमर्सिबल श्रेणियों के	वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने	रुपए ज़ुटाए जा रहे हैं।	९०,००० शेयर आर्वोटेत किए व	ाए।	बिजनेस रेमेडीज के सभी पृष्ठें पर प्रकाशित खबर	नोट: 1. उपरोक्त विवरण से के अधिनियम 33 के तहत	स्टॉक एक्सचे	जी में दायर	किये गए तिग	माही और नौम	राही वित्तीय प	रिणामों क
लिए एसी/डीसी सौर पंप ईपीसी	कुल राजस्व १९५.९२ करोड़	कंपनी के आईपीओ का	ू कंपनी कॉर्पोरेट कैपिटल वेंच	ार्स में निवेश करने से पूर्व निवेशकों	से प्रभावित होकर किसी भी प्रकार का निवेश या अन्य किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेवें। अगर	विस्तृत प्रारूप का एक खद्ध वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रार	रण है। एकल रूप बॉम्बे स्टो	(स्टेंडअलो क एक्सचेज	न)/समेकित (की वेबसाइ	त (कसोलिडे ट http://ww	ਟੇਤ) ਰਿਸਾहੀ w.bseindla	.ख नौमाहे .com औ
शामिल है। कंपनी के ग्राहकों में	रुपए एवं 3.78 करोड़ रुपए का	मार्केट लॉट साइज 1200 शेयरों	प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया	~	कोई ऐसा करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी	कंपनी की वेबसाइट http:w	ww.mkexim	1.com पर भ	री जपलब्ध है		गवेश द्वारा	
सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस	कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित	का है। कंपनी के आईपीओ का	रहा है।	से सलाह लेनी चाहिए और यह	निर्णय लेने वाले के स्वय की होगी। किसी भी	1.0000000000000000000000000000000000000			एम. के.	. एक्जिम (इंटि	डेया) लिमिटेड	के लिए
प्राइवेट लिमिटेड, बीवीजी इंडिया	किया है।	प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर	नोट: कंपनी के आईपी		प्रकार के नुकसान के लिए बिजनेस रेमेडीज जिम्मेदार नहीं होगा।	स्थान : जयपुर				मनीब मुरली	क्षर/- घर दायलानी	
ମାହିକ୍ଦ । ମାଳ୍କର, ବାହାରା ହାରକା	विश्व हा	प्रबद्धन प्रमुख लाउ मनवार	ବାର: ପମବା ପ ଖାହିମ	ଧା ଜୟାଜସଥ ଏମାନ ବନା ହା		दिनांक : 06.02.202	14		15	डीआईएन.:	05201121	μ

आज खुलेगा 'एल्पेक्स सोलर लिमिटेड' का आईपीओ निवेशक 12 फरवरी तक कर सकेंगें कंपनी के आईपीओ में आवेदन

रिजर्व एंड सरप्लस 5.46 करोड़

कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। नई दिल्ली आधारित कंपनी 'एल्पेक्स सोलर लिमिटेड' कंपनी द्वारा 750 मेगावाट की वृद्धि करके मौजूदा सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा के उन्नयन और विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण, सोलर मॉड्यूल के एल्यूमीनियम फेम के लिए एक नई विनिर्माण





क कंपनी ने	ISSUE DETAILS	
ए का राजस्व	No. of shares (FV Rs. 10 each)	64,80,00
	Price band (Rs.)	109-115
ञ्पए का कर	Issue size (Rs. Cr.) (at upper band)	74.52
र्जत किया है।	Issue type	Book-bu
स्पष्ट है कि	Issue date	8 Februa
का लाभ बढ	Lot Size	1,200 Eq
	Anchor opening date	7 Februa
2024 की	Anchor portion	18,45,60
जपनी का कर	Reservation for Market Maker	3,24,000
मार्जिन 3.56	Reservation for NIIs	9,24,000
गया है। वित्त	Reservation for QIBs	12,31,20
	Reservation for Retail	21,55,20
सतंबर २०२३	Book Running Lead Manager	Corpora
कुल असेट्स	Registrar	Skyline
ज्पए, नेटवर्थ	Equity Shares outstanding prior to the Offer	1,79,93,

quity Shares (Fresh Issue)

ry 2024 (opens) 12 February 2024 (clo

y 2024

0 Equity Share

सर्वोटेक पावर सिस्टम का ईवी चार्जर आपूर्ति के लिए अडाणी टोटल एनर्जीज के साथ करार

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग समाधान प्रदान करने वाली सर्वोटेक पावर सिस्टम ने ईवी चार्जर की आपूर्ति के लिए अडाणी टोटल एनर्जीज ई-मोबिलिटी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने

निवेशक 12 फरवरी तक कर सकेंगें कंपनी के आईपीओ में आवेदन

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।

अहमदाबाद आधारित 'रुद्र गैस एंटरप्राइज लिमिटेड' द्वारा कार्यशील पंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बीएसई एसएमई प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज खुलकर 12 फरवरी को बंद होगा।'रुद्र गैस एंटरप्राइज लिमिटेड' गैस वितरण नेटवर्क परियोजनाओं, फाइबर केबल नेटवर्क, कंस्ट्रक्शन इकि प्रमेंट व व्हीकल रेंटल में सक्रिय है। कंपनी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, सिविल कार्य और शहरी गैस वितरण में पाइपलाइन नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी फाइबर ऑप्टिक केबल की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी के तीन व्यावसायिक कार्यक्षेत्र हैं।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने कुल राजस्व 28.16 करोड़ रूपए एवं 1.27 करोड़ रूपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ ,वित्त वर्ष २०२२ में 43.95 करोड़ रूपए का राजस्व एवं 1.79 करोड़ रूपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने कुल



राजस्व 49.57 करोड़ रुपए एवं 3.52 करोड़ रुपए का कर पश्चात धुद्ध लाभ अर्जित किया है।वित्त वर्ष 2024 की 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त अवधि में कंपनी ने 34.46 करोड़ रूपए और 2.47 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि वर्ष दर वर्ष कंपनी का लाभ बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 की 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त अवधि में कंपनी ने कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 7.16 फीसदी दर्ज किया गया है, जो कि काफी अच्छा कहा जा सकता है। वित्त वर्ष 2024 की 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त अवधि में कंपनी की कुल असेद्स 43.45 करोड़ रूपए, नेटवर्थ 11.49 करोड़ रूपए, रिजर्व एंड सरप्लस 5.40 करोड़ रूपए और कुल कर्ज 19.90 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। आईपीओ के संबंध में जानकारी: 'रुद्र

IPO Date	February 8, 2024 to February 12, 2024
Listing Date	[.]
Face Value	₹10 per share
Price	₹63 per share
Lot Size	2000 Shares
Total Issue Size	2,248,000 shares (aggregating up to ₹14.16 Cr)
Fresh Issue	2,248,000 shares (aggregating up to ₹14.16 Cr)
Issue Type	Fixed Price Issue IPO
Listing At	BSE SME
Share holding pre issue	6,090,000
Share holding post issue	8,338,000
Market Maker portion	116,000 shares Spread X Securities

कंपनी के आईपीओं का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी बीलाईन कैपिटल बीएसई एसएमई प्लेटफार्म पर आज खुलकर 12 फरवरी,2024 को बंद एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया होगा। कंपनी द्वारा १० रुपए फेसवैल्यू के जा रहा है। नोटः कंपनी के आईपीओ में निवेश 22,48,000 शेयर 63 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी कर 14.16 करोड़ रुपए

जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का

मार्केट लॉट साइज 2000 शेयरों का है।

करने से पूर्व निवेशकों को पंजीकृत निवेश सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए और यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

पंजीकृत कार्यालयः ए-२४३(ए), रोड़ नं.-6, वीकेआई एरिया, जयपुर ३०२०१३, फोनः ०१४१-४१५७७७ वेबसाईटः www.leharfootwear.com, ई-मेलः csco@leharfootwear.com, info@leharfootwear.com 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए एकल अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

					(ਧ਼ਰਿ शੇ	lयर आंकड़ों को छोड़क	र रुपए लाखों में)
क्र.	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	नौमाही	समाप्त वार्षिक
सं.		31 दिसम्बर,2023	30 सितम्बर,2023	31 दिसम्बर,2022	31 दिसम्बर,2023	31 दिसम्बर,2022	31 मार्च, 2023
		(अन-अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	3575.37	5563.27	3565.27	15619.74	15187.71	20254.87
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर,	153.88	270.22	103.7	728.55	418.84	652.44
	असाधारण और या असाधारण वस्तुओं से पहले)						
з.	अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	153.88	270.22	103.7	728.55	418.84	652.44
	(असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)						
4.	अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	103.42	202.02	109.14	534.27	341.59	512.99
	(असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाढ़)						
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए	103.42	202.02	109.14	534.27	341.59	517.3
	(कर पश्चात) समावेशित लाभ/(हानि) और अन्य						
	समावेशित आय (कर पश्चात)						
6.	समता अंश पूंजी	1633.13	1633.13	1367.88	1633.13	1367.88	1566.48
7.	संरक्षित निधि (पुर्नमूल्यांकित संरक्षित निधि को	0	0	0	0	0	4762.92
	छोड़कर) गत वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में						
	दर्शाये गये अनुसार						
8.	आय प्रति शेयर (रु. १०/- प्रति)(नियमित एवं						
	अनियमित संचालन के लिये)						
	मूल	0.95	1.26	0.8	4.89	2.5	3.72
	तनुकृत	0.95	1.26	0.8	4.89	2.5	3.72
A	<u></u>						-

टिप्पणियौ

दिनांकः 07/02/2024

स्थानः जयपुर

क) उपर्युक्त सेबी (सुचीबद्धता बायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बायर किए गए ग्रेमासिक और नौमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। त्रैमासिक और नौ महीने के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.leharfootwear.com पर उपलब्ध हैं।

ख) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और ०७ फरवरी २०२४ को आयोजित बैठक में निरेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ग) खंड रिपोर्टिंग के प्रावधान लाग नहीं हैं।

ध) # - असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं को इंड-एएस नियमों/एएस नियमों, जो भी लागू हो, के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
लहर फ़ुटवियर्स लिमिटेड
ँ कृते/-
राज कुमार अग्रवाल
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
DIN:00127215

27

WWW.FINANCIALEXPRE		
CIN: L14219 Registered Office: Flat Ne Khasra No. 175/74, plot No E-mail ID: info@neelr Pursuant to Regulation 47 read with F Disclosure Requirements) Regulations, Board of Directors of the Company is sci 2024 at the Registered Office at Flat I 175/74, plot No. 15/16 Jodhpur, Raja	K-MINERALS LIMITED RJ1988PLC062162 5. 606, Scheme Chopasani Jagir, 15/16 Jodhpur, Rajasthan-342001 ock.com; Tel: +0291-2631839 OTICE legulation 33 of SEBI (Listing Obligations and 2015, Notice is hereby given that a meeting of heduled to be held on Wednesday 14th February, No. 606, Scheme Chopasani Jagir, Khasra No. Isthan - 342001, inter alia, to consider the pany for the quarter ended 31st December, 2023. By Order Of The Board For Neelkanth Rock-Minerals Limited Sd/- Noratmal Kawar Managing Director	Milet care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.
Auction Sale Notice for Sale of Immovat Security Interest Act, 2002 read with Rule	ost letters	tion of Financial Assets and Enforcement of 2. Notice is Hereby given to the general public

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

porate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

SMFG

IndiaCredit

eas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit pany Limited), Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road rravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and corporate office at 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, ra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of rity Interest Act. 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security st (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned hereunder calling upon the following borrowers to repay the int mentioned in the notice being also mentioned hereunder within 60 days from the date of receipt of the said notice. The following wers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the following borrowers and the public in general that undersigned aken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned hereunder:

Name of the Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors & Loan Account Number 1) MS VIVAAN INTERNATIONAL, 2) MOHIT DUDEJA, 3) ROHIT DUDEJA 4) NEHA DUDEJA Account No: 214420911291423	Demand Notice Date Amount 13.10.2023 Rupees 41,25,973/- (Rupees Forty One Lac Twenty Five Thousand Nine Hundred Seventy Three Rupees Only)	Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged PROPERTY-1 ALL THAT PROPERTY BEARING SITUATED AT FLAT NO.G-1 ON GROUND FLOOR MMIG PLOT NO.37 FRIENDS COLONY LOHA MANDI WARD TEHSIL & DISTRICT AGRA-282010. BOUNDARIES BOUNDED BY AS UNDER: EAST: ROAD 9 MTS WEST: COMMON PASSAGE STAIRS CONSTRUCTED FLAT NO. G-02 NORTH: ROAD 9 MTS SOUTH: MMIG FLAT NO.36 PROPERTY-2 ALL THAT PROPERTY BEARING SITUATED AT FLAT NO.F-1 ON FIRST FLOOR ADMEASURING AREA 55.27 SQ FEET APARTMENT CONSTRUCTED ON MMIG PLOT NO.37 FRIENDS COLONY LOHA MANDI WARD TEHSIL & DISTRICT AGRA-282010 BOUNDARIES BOUNDED BY AS UNDER: EAST: OPEN TO SKY WEST: COMMON PASSAGE STAIRS REAFTER FLAT NO. F-2 NORTH: OPEN TO SKY SOUTH: MMIG HOUSE NO.36	Date of Possession Type of possession 06-02-2024 Symbolic Possession
subject to the Charge	of Fullerton India Cr rovisions of sub-sec	n general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the j edit Company Limited for an amount mentioned herein above and interest thereon. ction (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured as SD/-, Authorised Officer- SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Com	The borrower's sets.

Website: www.ufindia.com; E-mail: support@ufindia.com Extract of Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended on 31.12.2023

The Unaudited standalone financial results of the Company prepared in accordance with Indian Accounting Standards (the "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013. (Rs in Lakh)

Universal Autofoundry Limited

Regd. Office: B-307, Road No.16, VK.I.Area, Jaipur - 302 013 (Rajasthan) Tel: 0141-4109598; CIN: L27310RJ2009PLC030038;

Sr.	Particulars	(Juarter Ende	d	Nine Month	Year Ended
No.	, faret-resident 10 1	31.12.2023 (Unaudited)		31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1,	Total Income from Operations	4471.20	5238.05	5265.63	15476.74	23711.85
2.	Operating Profit (PBIDT)	17.21	365.83	771.67	1091.07	2556.2
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(215.88)	157.98	492.77	432.13	1477.06
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(154.97)	112.91	356.22	313.49	1048.93
5.	Total Comprehensive Income for the period	(137.82)	102.13	360.38	321.55	1056.83
6.	Equity Share Capital (of Rs. 10 each)	1243.45	1211.25	1013.75	1243.45	1211.25
7.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) 1. Basic (in Rs.): 2. Diluted (in Rs.):	(1.14)	0.84	3.55 3.55	8.91 8.91	10.38 10.38

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and nine months ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly unaudited financial results is available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.ufindia.com

For and on behalf of the Board of Directors Sd/- Vimal Chand Jain Chairman and Managing Director DIN: 00295667
DIN: 00295667

CAN FIN HOMES LTD. 1ST FLOOR, SCO 2, SECTOR 9, HUDA MARKET

Can Fin Homes Ltd KARNAL-HARYANA-132001, TEL.: 0184-2231555, 7625079210 (Sponsof: CANARA BANK) E-mail : karnal@canfinhomes.com,

Place: Jaipur Date: 07.02.2024

CIN:L85110KA1987PLC008699

[Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

The undersigned being the Authorised Officer of the Can Fin Homes Ltd, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 30/11/2023 calling upon the borrowers Mr. Sanjay S/o Mr.Balwant Singh, Mrs.Rita Rani W/o Mr.Sanjay and (Guarantor) Mr.Vindu Sav S/o Mr.Ganesh Sav to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,57,979/- (Rupees Nine Lakh Fifty Seven Thousand Nine Hundred and Seventy Nine Only) with further interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 6th day of February 2024.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Can Fin Homes Ltd. for an amount Rs. 9.57.979/- (Rupees Nine Lakh Fifty Seven Thousand

0	PARTICULARS	9	2UARTER EN	DED	NINE YE/	AR ENDED	In Rs. Lakhs) FINANCIAL YEAR ENDED
	2		30.09.2023 UNAUDITED	31.12.2022 UNAUDITED	31.12.2023 UNAUDITED		31.03.2023 AUDITED
ļ	Total income from Operations (Net)						2 9
ļ	Net Profit/(Loss) for the period before Tax	-66.75	-67.35	-49.89	-205.72	-136.92	-182.37
	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	-66.75	-67.35	-49.89	-205.72	-136.92	-182.37
	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-66.75	-67.35	-49,89	-205.72	-136.92	-182.37
	Equity Share Capital	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-2,387.43	-2,387.43	-2,246.48	-2,387.43	-2,246.48	-2,246.48
ĺ	Earnings Per Equity Share (of Rs. 10/- each)						

Г	TOSHA INTERNATIONAL L	IM
L	CIN No. : L32101DL1988PLC1192	
I.	Regd. Office : E-34, 2nd Floor, Connaught Circus,	New
h	EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER EN	

discontinued operations) -

						panount	III Na. Lania/
i. Io	PARTICULARS	9	QUARTER EN	DED	NINE YE	FINANCIAL YEAR ENDED	
	2	31.12.2023 UNAUDITED	30.09.2023 UNAUDITED		31.12.2023 UNAUDITED	31.12.2022 UNAUDITED	the second second second second
	Total income from Operations (Net)		2 0 				
	Net Profit/(Loss) for the period before Tax	-66.75	-67.35	-49.89	-205.72	-136.92	-182.37
	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	-66.75	-67.35	-49.89	-205.72	-136.92	-182.37
	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/[Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-66.75	-67.35	-49.89	-205.72	-136.92	-182.37
	Equity Share Capital	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93	1,144.93
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance	-2,387.43	-2,387.43	-2,246.48	-2,387.43	-2,246.48	-2,246.48

Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-2,387,43	-2,387.43	-2,246.48	-2,387.43	-2,246.48	-2,
Earnings Per Equity Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and						

and in particular to the Borrowers and Guarantors that the above described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by Authorized Officer of Cent Bank Home Finance Limited, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" Basis for recovery of amount mentioned against property due to the secured creditor from the borrower. The reserve price and earnest money deposit, description of the immovable property are as mentioned in the table given below

 5. 10.	Name of the Borrower, Guarantor & File No.		Amount outstanding as on date of demand notice (Rs)	Demand Notice		Price (Rs.) Auction Date	
1.	and Mrs. Yashoda Account No.	Entire Third Floor, front side with roof rights of free hold buit up portion of property no. 9 & 10, land measuring 50 Sq.yrds, Part of Khasra No. 8/14, Situated in the Colony Known as Jain Park, in the area of Village Matiala, Delhi State New Delhi. Boundaries: East: Plof No. 8, West: Others Plot, North Others Property, South: Road	+ applicable interest and all other charges	03.10.2022	15.03.2023 (Physical)	11,08,000.00	1,10,800.00

TERMS & CONDITIONS: (1) The Auction is being held on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is Basis". (2) The secured asset will not be sold below the Reserve Price . (3) The intending purchaser / bidder should submit their bids in the prescribed tender form in a closed envelope separately for each property, with The Earnest Money Deposit (EMD) amount (not below the 10% of Reserve Price) by means of Demand Draft (Nationalized Bank) / RTGS / ONLINE Transfer drawn in favor of **Cent Bank Home Finance** Ltd. payable at New Delhi on or before 26.02.2024 up to 3.30 PM at above address of Cent Bank Home Finance Ltd. New Delhi Branch. (4) The sealed envelope will be opened by the Authorized Officer at New Delhi Branch in the presence of eligible / available Intending Bidders who have deposited EMD amount Through Demand Draft (Nationalized Bank) / RTGS / ONLINE Transfer to participate in Auction sale on 26.02.2024 upto 4.00 pm (5) To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on the property under sale. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims / rights / dues / chain / effecting the property, prior to submitting their bid. The Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Officer Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims / rights / dues.(6) It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property put on auction will be permitted to interested bidders at sites on 20.02.2024 between 12.00 PM to 4.00 PM. (7) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder / highest bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The sale shall be confirmed in favor of the purchaser who has highest sale price in his bid or tender to the Authorized Officer and shall be subject to confirmation by the Secured Creditor. The Highest bid will be subject to approval of the secured creditor / Authorized Officer. (8) The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price. (inclusive of EMD paid), on the same day or not later than next working day and the balance amount of purchase price payable i.e. 75% of

the sale price will be paid to the Authorized officer on or before 15th day of confirmation of sale by secured creditor. In case of default o payment within the period mentioned above all the amount deposited till then shall be forfeited including Earnest money and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or any part of the sum for which it may be subsequently sold. (9) The purchaser shall bear the applicable stamp duties / additional stamp duty / transfer charges, fee etc. and also all the statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. owing to anybody. (10) The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn / postpone / cancel the Auction without assigning any reason thereof. (11) This is also a notice to the Borrower / Guarantor / Property owner of the aforesaid loans in respect of the sale of the above mentioned secured Asset under SARFAESI Act 2002 under Rule 8(6)

केनरा बैंक Canara Bank A Regional onice , Haldwall (For Movable/Immovable Properties)

Whereas, Undersigned being the Authorised officer of Canara Bank under, the Securitization and Reconstruction

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers

conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a

demand notice as mentioned against each account stated herein to repay the amount mentioned in the notice

within 60 days from the receipt of the said notice. The Borrowers/Guarantor having failed to repay the amount,

notice is hereby given to the Borrowers and Mortgagor/Guarantor and the public in general, that the undersigned

has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred up on him/her under

section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said rule as per the details given below. The Borrowers

/Mortgagor/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property

and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Canara Bank for an amount and interest

thereon as mentioned below. The borrower's attention is invited to the provision of Sub Section (8) of Section-13

Description of Movable/Immoveable

Properties

Mehmoodpur Tigri Tehsil & Dist Moradabad,

towards in east 5.49 meter, in west 4.87 meter

in north 34.75 meter in south 35.67 meter total

area 182.39 square meter, property is in the name of Mr.

Iftekar hussain S/o Makbool Hussain. Bounded by - East: House of Najakat,

EMT of land & Building situated at village

Dist U S Nagar Uttarakhand 244713 West: Rasta 10 meter wide, North: Plot of Irfan Salmani, South : Plot Shakir.

Place : Regional Office, Haldwani

Shri Chattarpal Singh S/o Shri Jagdish Chand (Guarantor) R/o H. No. 507, Jageshwar Colony, Maheshpura,

of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Prop. Iftekar Hussain S/o Makbool Uttar Pradesh having Khasra No. 9 admeasuring

Name of Branch Name &

Address of Borrower/Guarantor

BRANCH : Kashipur-II

Hussain, Address: Village

Moradabad. Unit Address:

Kashipur Pin 244713.

Date : 08.02.2024

केनरा बैंक

M/s Tiles World (Borrower)-

Mehmoodpur Tigri Tehsil & Distt.

Fasiyapura Dariyal Road Kashipur,


Finisise Syndicate

No

Date: 07.02.2024, Place: Delhi

Authorised Officer: Cent Bank Home Finance Limited, New Delhi Branch

A Government of India Undertaking Banguet Hall, Cheenpur, Haldwani, Email : crrohld@canarabank.com



53.95 square vards in Kalandri Gate, Dhobi Mohalla, Tehsil & District Karnal, Harvana North: Rasta, South: Property of other owner East : Rasta, West : Property of Other owner **Authorised Officer Can Fin Homes Ltd**

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India POSSESSION Zonal office: Agra NOTICE

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

'FORM NO. INC-26" Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT. REGIONAL DIRECTOR), NORTHERN REGION the matter of Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

CLIQTAX FOUNDATION

A Section 8 Company registered under the provisions of the Companies Act, 2013 and having ts registered office at Office No 214 S/F Bld No 1333-35 Durga Chamber Db, Gupta Road Naiwala Karol Bagh, New Delhi, 110005

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the entral Government under section 13 of the ompanies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General meeting held on 16" January, 2024 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana'

Any person, whose interest likely to be affected by the proposed Shifting of Registered Office of the Company from the "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana", may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing vestor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of Publication of this notice with a copy to the petitioner Company at the Registered Office of the Company as mentioned below:

Office No 214 S/F Blo Chamber Db, Gupta Roa New Delhi, 110005	i No 1333-35 Durg d Naiwala Karol Bag
For C	LIQTAX FOUNDATIC
Dated : 08.02.2024	Sahil Ga Direct
Place : Delhi	DIN : 0792828

Dated : 08.02,2024 Place : Delhi	Sahil Gaur Director DIN : 07928282
2.01.0104.0103.000	

FORM NO. INC-26"

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 20141 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR (CENTRAL GOVERNMENT) MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause [a] of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And IN THE MATTER OF

BHIWADI POLYMERS LIMITED having its registered office At-25, Near Raidhani Park Metro Station Mundka, North Delhi, Delhi-110041 ...Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that ication to 13 of the mation of ciation of resolution Meeting 2024 10

The Authorized Officer of Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the Property described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule-8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of Bank of India for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Property of which the possession had been taken is as follows.

Name of the Borrowers & Guarantors	Description of Immovable properties	Politicalid	Date of Possession Notice	Amt. Due as pe Demand Notice
	BRANCH: TAJ BULAND, AGRA			
Borrower: Mr. Virendra Singh S/o Mr. Dipati Singh.	Residential Unit Situated at Plot No.77, Part of Khasra No. 89, Basera Residency, Mauja Jaganpur Mustkil, Hariparwat Ward, Agra, in the name of Mr. Virendra Singh S/o Mr. Dipati Singh, admeasuring area- 54.36 Sq. mtrs. Bounded as: East- 18 Ft Wide Road, West- House, North- House of Sagar, South- Plot of Other.	17.07.2023	06.02.2024	Rs. 8,03,614.53 + Interest & others expenses
Borrower: M r. Vinod Kumar Saini S/o Mr. Radhey Shyam Saini.	Residential Unit Situated at Plot No. 25, Yamuna Vihar Colony, Mauja Sikendarpur Mustkil, Khasra No. 208, Tehsil & Distt Agra UP-282005 in the name of Mr Vinod Kumar Saini S/o Mr. Radhey Shyam Saini, Area- 56.20 Sq.Mtr . Bounded as: East- Plot No. 29, West- Rasta 5.48 Mtr Wide & Exit, North- Part of Plot No. 24, South- Part of Plot No. 25	31.07.2023	06.02.2024	Rs. 7,52,436.95 + Interest & others expenses
Date: 08.02.2024			Autho	rised Officer

Canara Bank

Canara Bank, Regional Office, Chandwani Market, Arya Nagar, Above Reliance Smart Point, Jwalapur, Haridwar, PIN-249407 Email: roddn2rec@canarabank.com

Authorised Officer

Outstanding

Amount as per

Demand Notice ₹20,36,819.30

(Rupees Twenty Lakh

Thirty Six Thousands

ight Hundred Ninteen

& Paisa Thirty Only)

plus further interest &

other expenses

Date of

Demand

Notice

31.10.2023

Date of

Possession

02.02.2024

POSSESSION NOTICE [Section 13(4)] (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002)(here in after referred to as "The Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the Borrower/Guarantors/Owners/Legal Heirs as given below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/Guarantors/Owners/Legal Heirs having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors/Owners/Legal Heirs and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 & 9 of the said Rules The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The Borrower/ Guarantors/ Owners/Legal Heirs in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property, and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Respective Branches for the amount detailed below and interest together with expenses thereon.

		D			6	6. Equity share capital	1633.13	1633.13	1367.88	1633.13	1367.88	1566.48	Notice is hereby given to the General Public that
S.	Name of Borrower/Guarantor	Branch Date of Demand Notice	Amount outstanding	Description of the Movable/	7	7. Reserves (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	0	0	4762.92	the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of
No.	account holder and address BORROWER/SURETY/OWNER/S	Date of Possession	Rs. 40,58,823.60 (Rupees	Immovable property Description of the movable Property:	8	 Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 	0.05	1.36		4.00	2.5		the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Thursday, 25 ^e day of January, 2024 to
	1. M/s Vinayak Hospital prop. Smt. Asha W/o	MANGLOUR	Forty Lakh, Fifty Eight	Name of the title holder: M/s Vinayak Hospital-		1) Basic 2) Diluted	0.95	1.26	0.8	4.89	2.5	3.72	enable the Company to change its Registered
1.	Sh. Narendera Kumar R/o Jathedi Near		Thousand, Eight Hundred	O2 Cintral Gas Line With Manifold (5), Fogger (1), 5 Para		Notes: a) The above is an extract of the detailed for							Office from National Capital Territory of Delhi" to "State of Rajasthan".
hande	Balalji Bhattta, Deoband Road, Block Manglour, Nanauta Chouraha, Roorkee	06.09.2023	Twenty Three & Sixty Paisa Only) as on 05.09.2023 +	Monitar (4), Semi Flower Bed (5), Bed Side Locker Flux (5),	E	Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obl	igations and	Disclosure R	lequirement	s) Regulation:	s, 2015. The	full format	Any person whose interest is likely to be affected
	Haridwar Uttarakhand 247665, 2. Smt. Asha	02 02 2024	Interest w.e.f. 22.08.2023 +	Bed Side Screen (5), Patient Stool (5), Iv Stand (5), Oxygen Concontrator 10 Ltr (2), Cash Cart (ss) (1), Dental Chair Set		of the Quarterly & Nine Months Financial Results are a company's website www.leharfootwear.com. b) The a							by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-
	W/o Sh. Narendera Kumar R/o Add1: 805/3	03.02.2024	Expenses - Recoveries after 05.09.2023 in A/c	(1), Pulexoximetter (5), Autoclave With Drum (1), Invertor +	th	he Board of Directors at its meeting held on 07th Fel	bruary 2024	c) Provision:	s of segment	reporting an	e not applic	able. d) #-	21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor
	Rawat Tent Wali Gali Subhash Nagar Roorkee Haridwar Uttarakhand 247667,		5, Rs. 11,76,327.31 (Rupees	Double, Battery (1 Set), Stracher (1), O.t. Table (1), O.t. Light		Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in Rules, whichever is applicable.	the Stateme	ent of Profit			옷은 김 씨가 집에 대해 있는 것이 없다.	N. 622 N. P. C. 626 N. C. 63	complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported
	Add2: Khata No. 179, Part of Khasra No. 70,		Seventy Six Thousand Three ty Seven & Thirty One Paisa	(1), Anesthesia Trolly (1), Bed (19), Instrumental, Drum (1),		en el la companya de			For and	l on behalf of of Le	the Board (har Footwe		by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional
	Gram Jathedi, Pargana Manglore, Tehsil -	Only) as on (05.09.2023 + Interest w.e.f.	Oxygen Concentrator Machine (3), Monitor Spang (2),		Date: 07.02.2024			IChairman 6		d/- Raj Kum	har Agarwal	Director at the address, B-2 Wing, 2nd Floor
	Roorkee, Distt – Haridwar. 247656	17.08.2023 +	Expenses - Recoveries after	Operating Instrument Kit (1) Description of the Immovable Property: Name of the title	5	Place: Jaipur			(chairman e	k managing u	mectory on	1.0012/215	Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi- 110003, within fourteen days of the date of
	05.09.2023 in A/c 170000831533 and Rs. 7	,83,126.31 (Rupee:	Seven Lakh, Eighty Three	holder: Smt. Asha W/o Sh. Narendera Kumar,	-								publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the
	Thousand One Hundred Twenty Six & Thirty O 08.08.2023 + Expenses - Recoveries	after 05.09.2023 in	A/c 170006257204	1. EMT of all that of residential property situated at Khata		MITTINA D CMALL EINANCE DA	NI	SEC	COND F	LOOR, G	MTT BU	JILDING	address mentioned below:
				th-30ft, Gram Jathedi, Pargana Manglore, Tehsil– Roorkee,		🕲 UJJIVAN SMALL FINANCE BA	AIN	D-	7 SECT	OR 3 NO	IDA UP	201301	25, Near Rajdhani Park Metro Station Mundka, North Delhi, Delhi-110041
	Distt- Haridwar. Total Land Area measuring	1874.55 Sq. Ft. i.	e. 174.214 Sq. Mtr. Boundarie	es: EAST- Property of Vijaypal, WEST- Property of Bijendra,		DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) O		MIDITIZAT	ION & DEC	ONSTRUCT		NANCIAL	For and on behalf of Board
	NORTH-Property of Dr. Amit Kumar, SOUTH-1			destant con west con Next 200 and cash 200 cash		ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECU							Bhiwadi Polymers Limited Sd/-
				ring East-60 ft, West-60 ft, North-30ft and South-30ft, Gram 00 Sq. Ft. i.e. 167.286 Sq. Mtr. Boundaries: EAST- Property of		A notice is hereby given that the following borrower (s)							Date : 08.02.2024 Ankit Kakkar Place : Delhi Director
	Vijaypal, WEST- Property of Bijendra, NORTH-					facilities obtained by them from the bank and said facili							DIN : 02900898
1	BORROWER/SURETY/OWNER/S	JWALAPUR-I	Rs. 34,50,120.41	Name of the title holder: Smt. Monika Verma D/o Sh.		The notice under Section 13(2) of Securitization and F			-				Address : A-140, Meera Bagh, Paschim Vihar, Sunder Vihar, S.O. New Delhi-110087
	1. M/s Tirupati Poultry Farm Prop. Smt.		(Rupees Thirty Four Lakh	Indour Kumar urf Indour Singh W/o Sh. Pravindra Kumar		2002 were issued to Borrower(s) / Guarantor(s) on the							
	Monika Verma W/o Sh. Pravindra Kumar R/o	01.11.2023	Fifty Thousand One	EMT of all that of residential property HNo. 2B/436, East-		returned un-served and the Authorised Officer has rea							
2	Gram Rajpur, PO Gavardhanpur, Laksar,	06.02.2024	Hundred Twenty & Forty	60.00 ft, West-60.00 ft, North-20.00 ft & South-20.00 ft, Khevat No. 1/1, Khasra No. 144 Mahal Laxmichand Wake	n	notice, as such they are hereby informed by way of pub	lic notice abo	out the same			Ū	5.0	1 to and the
-	Distt. Haridwar, Uttarakhand 246734, 2.	2010/01/2010/01/201	One Paisa Only) as on 29.10.2023 + Interest w.e.f.	Mauja situated Pathanpura, Pargana & Tehsil & Distt.		Name of the Branch & Descr	ription of	the I	Date of	Date of	E Amou	nt as per	12 Contraction
	Smt. Monika Verma W/o Sh. Pravindra		30.09.2023 + Expenses -	Saharanpur dar abadi Mission compound Saharanpur.			ired Asse		emand Notic			nd notice	
	Kumar R/o HNo. 176, Mahangi, Saharanpur,		Recoveries after 29.10.2023	Total Land Area measuring 111.47 Sq. Mtr. <u>Boundaries:</u> EAST- House of Ranbir Singh, WEST- House of Raj Kumar		BRANCH: ALWAR (RAJASTHAN) All that Part &	Parcel of R	esidentia	00 40 0000	00.44.000	Rs. 16.7	4,178 as or	THE
	Uttar Pradesh 247452, Guarantor/s 1. Sh. Pravindra Kumar S/o Sh. Rohtash Singh R/o		in A/c 5097796000001,	Khurana, NORTH- House of Basant Kumar, SOUTH- Way 20	1	1. Roshan Saini S/o Ramswaroon House over P	atta No. 27	1, Behind		08.11.202	4.12	2023 plus	BUSINESS
	Majhoula Gujar, Pheena, Chandpur, Uttara		Rs. 24,44,377.00 (Rupees	ft. wide (Possession Date - 06.02.2024)	s	Saini@RamswaroopBorrowerNava Meena Dhara	imshala, Lo	odi ka Bas	, Tehsil &	District Alwa	ar interest	and other	
	Pradesh 246734, 2. Sh. Indaur Singh S/o Sh.	JWALAPUR-I	Twenty Four Lakh, Forty Four Thousand Three	DESCRIPTION OF THE MOVABLE PROPERTY:	B	Bass Alwar Behind Meena Raiasthan, adi	measuring a	rea 73.57 S	a. Mts which	is bounded a	ad charges	at contracted 05.12.2023	
	Narayan Singh R/o HNo. 176, Mahangi,	JWALAPUR-	Hundred Seventy Seven	Name of the title holder: M/s Tirupati Poultry Farm		Dharmshala, Alwar, Rajasthan-follows: Bound 301002, Also At:- Rakesh Tea Corner Road, South:	laries: East: Coli, The Dr	Sundar Lal	, West:Kisha				ALL HERE STREET
	Saharanpur, Uttar Pradesh 247452	01.11.2023	Only) as on 29.10.2023 +	MOVABLE ITEMS- Automatic Feeding System, Nipple		Naya Bass Circle, Alwar, Rajasthan- Wowad Ram i	oall. The Pr	operty befor	igs to Kains morandum (of deposit of ti	itle deeds fo	p sam s/o	
				Drinking System, Evaporative Cooling System, Curtain	3	301001, 2. Ramswaroop @ mortgage date	d:23.02.202	2.	morandum				FINANCIAL EXPRESS
		03.02.2024	importance. Therefore areas	Winching System, Pressure Washer, Dosatron Medicator DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:		Ramswaroop Saini S/o Wowad Ram Co-Borrower/			Baas Ward	No. 30. Nava	Bass, Alwar	Raiasthan	The second second second second
			29.10.2025 III Ayu	Name of the title holder: Smt. Monika Verma W/o Sh.		301001. Loan Account Housing (Account No. 221221					,	,	FQB
	5097271000001 and Rs. 20,18,716.00 (Two Sinteen Only) or an 20,10,2023 a laterative			Pravindra Kumar	T	The above borrower(s)/guarantors(s) are advised t	o pay the a	mount ment	tioned in not	ice within 60) days from	the date of	
	Sixteen Only) as on 29.10.2023 + Interest w 29.10.2023 in A	/c 170004457965		EMT of all that of residential property situated at Khata No. 179, Part of Khasra No. 70 measuring East-62.485 ft, West-	p	publication of this notice failing which further steps wi	ll be taken a	fter the expir	y of 60 days	of the date of	notice as pe	er provisions	
	The construction of the second s	NAM VARCES 774	a la nenances de ca		0	of the Securitization and Reconstruction of Financia	al Assets an	d Enforcem	ent of Secur	ity Interest A	Act 2002. N	oreover the	BUSINESS.
				stt – Haridwar. Total Land Area measuring 1874.55 Sq. Ft.		porrower(s) / Guarantor(s) are hereby restrained fro							Breenthesen
	i.e. 174.214 Sq. Mtr. Boundaries: EAST- Prop and 8 ft. Wide Rasta (Possession Date - 03.0		rest- Property of Bijendra,NO	RTH- Property of Dr. Amit Kumar, SOUTH- Property of Asha		any manner whatsoever, without our prior conse subject Act and/or any other law in force.	ent. This is v	vitnout preju	aice to any o	piner rights a	valiable to l	is under the	
	and a restricted transfer of the second state - 0510			Authorised Officer Canara Bank	_		lace: Alwar	(Rajasthan)			Author	ised Officer	financialexpress.com
													1. A
tina	ancialexp.epapy.in								New De	lhi	E		
-													

LEHAR FOOTWEARS LIMITED REG OFFICE: A-243(A), ROAD NO.6, V.K.I.AREA, JAIPUR 302013, PHONE:0141-4157777

Website: www.leharfootwear.com, E-mail: csco@leharfootwear.com info@leharfootwear.com, CIN: L19201RJ1994PLC008196

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 (Rs. In lacs except per share data) **Quarter Ended** Nine Months Ended Year Ended 31 Dec '23 | 30 Sep '23 | 31 Dec '22 | 31 Dec '23 | 31 Dec '22 | 31 Mar'23 Particulars No Unaudited (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1. Total Income from operations 20254.87 3575.37 5563.27 3565.27 15619.74 15187.71 Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, 652.44 153.88 270.22 103.7 728.55 418.84 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period before tax 103.7 652.44 153.88 270.22 728.55 418.84 (after exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after 103.42 202.02 109.14 534.27 341.59 512.99 exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive Income for the period 109.14 341.59 517.3 103.42 202.02 534.27 [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)] Consider drawn another. 4633 43 4633 43 AFCC 40. 1267.00 1000 40